

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया का 102 स्थापना दिवस समारोह शुरू

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 102वें स्थापना दिवस का तीन दिवसीय समारोह आज जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर द्वारा एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के प्रीव्यू थिएटर में, छात्र फिल्म महोत्सव 'एजेकेएमसीआरसी फिल्मोत्सव' के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। दिन भर चलने वाले फिल्म महोत्सव में छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उत्सव के क्रम में केंद्र में कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्रेमचंद अभिलेखागार और साहित्य केंद्र (जेपीएलसी), जामिया ने मुंशी प्रेमचंद के 'शतरंज के खिलाड़ी' का नाटकीय वाचन प्रस्तुत किया। यह प्रदर्शन डॉ दानिश इकबाल द्वारा निर्देशित किया गया था जिसे पीजी डिप्लोमा, अभिनय, एजेकेएमसीआरसी, जेएमआई के छात्रों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का मंचन प्रो. कीर्ति जैन, प्रख्यात रंगमंच निदेशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के पूर्व निदेशक और जामिया के कुलपति प्रो नजमा अख्तर की उपस्थिति में किया गया था। इस प्रदर्शन के मौके पर छात्र, शिक्षक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। प्रो. जैन ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और नाटक के ऐतिहासिक परिवेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुति की क्षमता के लिए प्रशंसा की। कुलपति ने छात्रों को बधाई दी और उन्हें अभिलेखागार का दौरा करने और जामिया के इतिहास और जेपीएलसी में अन्य होलडिंग्स के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया।

आर्किटेक्चर विभाग, आर्किटेक्चर एवं एकिस्टिक्स संकाय, जेएमआई ने इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन स्टूडेंट चैप्टर की इंस्टालेशन का आयोजन किया।

कुलपति प्रो. नजमा अख्तर की उपस्थिति में, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकेश असिजा, अध्यक्ष, दिल्ली चैप्टर, इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वास्तुकला विभाग के अध्यक्ष प्रो. कमर इरशाद ने अतिथियों का अभिनंदन किया और दर्शकों का स्वागत किया। उन्होंने वास्तुकला और योजना के छात्रों को आईपीए और इसके बेनेफिट्स के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी।

प्रो. अख्तर ने दर्शकों को इंजीनियरिंग और डिजाइन के एक हिस्से के रूप में प्लंबिंग के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आईपीए के छात्र चैप्टर की शुरुआत छात्रों को एक्सपोजर और निकट भविष्य में जुड़े बेनेफिट्स प्रदान करेगी। यह शिक्षाविदों और उद्योग के बीच एक कड़ी का काम करेगा, छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक से अवगत कराते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अनुरूप है।

विश्वविद्यालय के डॉ. जाकिर हुसैन केंद्रीय पुस्तकालय ने पुस्तकालय के प्रदर्शनी हॉल में 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया: इतिहास और स्वतंत्रता सेनानी' नामक एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। स्वतंत्रता संग्राम में जामिया के संस्थापकों की भूमिका, गांधीजी और विश्वविद्यालय के साथ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के जुड़ाव को उजागर करने के लिए किताबें, तस्वीरें, समाचार पत्र और दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री परवेश वालिया, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक मेसर्स

बिलीव कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने डीन, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में किया।

स्थापना दिवस का मुख्य समारोह 29 अक्टूबर, 2022 को जामिया की कुलपति द्वारा जामिया ध्वजारोहण के साथ प्रारम्भ किया जाएगा, इसके बाद कुलपति और मुख्य अतिथि को सुबह 09.30 बजे डॉ एम ए अंसारी सभागार के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। डॉ. सुभाष सरकार, माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि होंगे और डॉ. उपेंद्र गिरि, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, जामिया एलुमनी कनेक्ट (कैलिफ़ोर्निया, यूएसए) इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि होंगे।

सांस्कृतिक संध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम - सोलो सॉन्ग, नुक्कड़ नाटक, ग्रुप सॉन्ग, कव्वाली, स्टेज प्ले, बैत-बाजी, स्व-रचित कविता पाठ, विदेशी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम - भी आयोजित किए जाएंगे। श्री रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सांसद, हरियाणा और प्रो. असीम अली खान, महानिदेशक, सीसीआरयूएम, भारत सरकार, दोपहर 3 बजे से डॉ. एम. ए. अंसारी सभागार में होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।

दिन भर चलने वाले स्थापना दिवस समारोह का समापन डॉ. एम.ए. अंसारी सभागार के प्रांगण में शाम 5.30 बजे एनसीसी कैडेटों द्वारा फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी के साथ होगा।

उत्सव के अंतिम दिन, ललित कला संकाय, जामिया विश्वविद्यालय की एम.एफ. हुसैन आर्ट गैलरी में 30 अक्टूबर, 2022 को शाम को प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में संकाय के शिक्षकों और छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग और मूर्तियां प्रदर्शित की जाएंगी।

जामिया एलुमनी कनेक्ट (JAC) (दिल्ली चैप्टर) भी 30 अक्टूबर, 2022 को ऑडिटोरियम, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, JMI में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। डॉ हनीफ कुरैशी, पुलिस आयुक्त, पंचकुला मुख्य अतिथि (राष्ट्रीय) होंगे और डॉ. उपेंद्र गिरी, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, जामिया एलुमनी कनेक्ट (कैलिफोर्निया, यूएसए) समारोह के मुख्य अतिथि (अंतर्राष्ट्रीय) होंगे।

जामिया स्कूल स्थापना दिवस मनाने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 को नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं। इस अंतर-विद्यालय प्रतियोगिता में फैसी ड्रेस, एक्शन सॉन्ग, हास्य कविता और पोस्टर मेकिंग जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया